



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 1, 1973/आश्विन 9, 1895
No. 230] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 1973/ASVINA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st October 1973

SUBJECT.—Scheme for the licensing of cotton millmade textiles including garments and made-ups for export to the U.K. during the period from 1-10-1973, to 31-12-1973.

No. 30-ETC(PN)/73.—The scheme relates to the export to U.K. of cotton mill-made textiles including garments and made-up goods covered by all the 20 categories (details are given in para 2 below) with effect from 1st October, 1973 upto 31st December, 1973.

2. CATEGORY AND MAIN GROUPS

Group IB Woven Cotton Fabrics. Grey or Bleached, Mercerised or not

1. Drills, Jeans, gaberdines, twills and sateens
2. Poplins
3. Sheeting & Shirting, under 60" in width
4. Sheeting & Shirting 60" and over in width
5. Grey or Bleached fabrics nes

Group IIA other Woven Cotton Fabrics

6. Sheeting, Shirting, Winceyettes, flannelettes other raised, brushed or sueded fabrics, other than printed, 60" and over in width
7. Corduroy

(1345)

8. Fabrics Dyed (including Denim), under 60" in width
9. Poplines
10. Dyed, and Printed fabrics nes
- Group IIB Woven Cotton Garments and Made-ups*
11. Woven, trousers and breeches, for men and boys
12. Woven outer garments for women, girls and infants
13. Shirts and bodices for men and boys, woven
14. Woven undergarments for men and boys
15. Woven undergarments for women, girls and infants
16. Handkerchiefs
17. Towels
18. Bed Linen including sheets
19. Gloves
20. Made-ups and Garments nes

3. Exports shall be allowed from any port in India

4. In respect of exports of all the 20 categories covering groups of grey and bleached cloth, finished cloth and made-ups the quotas shall be allotted against individual shipments by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, (at the office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay) or Texprocil's authorised representatives at upcountry ports of Calcutta, Madras, Tuticorin, Cochin, Ahmedabad and at New Delhi by way of endorsements on shipping bills on first-come, first-served basis. The allotment will be in terms of the decisions taken by the U.K. Textiles Licensing Advisory Committee, Bombay. Licensing endorsements on such allotments shall be made by the concerned Export Control Authorities at the port of shipment.

5. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the U.K. Textiles Licensing Advisory Committee.

6. All shipments of cotton textiles made during each month from any port in India shall be reported by the exporters concerned to the Cotton Textiles Export Promotion Council by the 10th of subsequent month.

7. Procedure of submission of Export Certificates shall be as follows: Exporters should prepare export certificates in the prescribed proforma in duplicate. One copy of the certificate duly certified by the Export Control Authorities at the port of shipment and duly countersigned by the Customs shall be retained at the port of shipment after the shipment has actually been passed, which shall be collected from the Customs by the representatives of the Cotton Textiles Export Promotion Council. The certificates thus collected by Texprocil shall be forwarded by it to the Ministry of Technology U.K. Under no circumstances shall export certificates be forwarded by the exporters directly. The second copy of the similarly certified and authenticated export certificate shall be retained by the exporter. The exporter or his shipping agent should ensure that the original export certificate is retained by the Preventive Officer concerned after the shipment has been effected.

7(a). In respect of air-consignments effected from places other than New Delhi, the exporters shall prepare the export certificate in triplicate. The third copy of the certificate, duly certified by the export control authorities shall be handed over to the Texprocil's representative for forwarding to the Texprocil's Head Office for onward transmission to the Department of Trade & Industry, London. The original and duplicate of the export certificate shall, then be submitted to the air customs department in the usual manner (as explained in the above paragraph). In respect of air consignments effected from New Delhi the exporters shall prepare export certificates as per the prescribed proforma in triplicate. After obtaining quota endorsement on the shipping bills from the representative of Texprocil at New Delhi the exporters shall retain third copy of the export certificate with the Texprocil's representative for onward transmission to the Ministry of Technology, U.K. The exporters shall then submit the original and duplicate copy to the export control authorities and the Air Customs. The original and duplicate copy of the export certificates shall be in the usual manner, handed over to the exporters after processing in the Customs Department. The original copy of the certificate then be forwarded to Representative of the Cotton Textiles Export Promotion Council in usual manner.

8. In the case of exports against Re-export (RE) Undertakings, the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, shall issue Re-export licences on the basis of quota certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay. These quota certificates shall be issued by Texprocil on receipt of a copy of the U.K. Ministry of Technology Re-export undertaking from the exporters.

9. In cases where the quota originally intended for home retention is re-exported, the exporters shall have to furnish the replacement certificate issued by the U.K. Ministry of Technology, on the basis of which a subsequent re-export (SR) quota certificate will be issued by Texprocil. Licences against such SR quota certificates shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay.

10. A non-refundable charge of Re. 1/- for every 1000 square yards for cotton textiles and made-ups subject to minimum of Rs. 5 for cotton textiles will be charged by the Cotton Textiles Export Promotion Council, for issue of quotas.

11. The U.K. Textiles Licensing Advisory Committee is empowered to:—

- (a) frame rules and regulations from time to time for the operation of the scheme;
- (b) supervise the entire scheme;
- (c) keep watch over the performance from time to time;
- (d) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and
- (e) make such changes in the scheme as the Licensing Advisory Committee may consider fit from time to time.

12. The U.K. Textiles Licensing Advisory Committee consists of five representatives nominated by the Indian Cotton Mills' Federation, five representatives nominated by the Cotton Textiles Export Promotion Council and one representative each nominated by the Clothing Manufacturers' Association of India, Bombay, the Textile Commissioner, Bombay, and the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay.

13. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council, is as under:
'Engineering Centre'
9, Mathew Road,
Bombay-4.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1973

विषय :—1-10-1973 से 31-12-1973 के दौरान पहनावों तथा तैयार माल सहित मिला निर्मित सूती वस्त्रों का यू० के० को निर्यात के लिए लाइसेंस देने से संबंधित योजना।

संख्या : 30-ई०टी०सी०(पी०एन०)/73.— यह योजना सभी 20 श्रेणियों (नीचे की कंडिका 2 में विस्तृत विवरण दिया गया है) के अन्तर्गत आने वाले पहनावों और तैयार माल सहित मिला निर्मित सूती वस्त्रों का 1-10-1973 से लेकर 31-12-1973 तक यू० के० को किए जाने वाले निर्यात से संबंधित है।

2. श्रेणी और मुख्य ग्रुप

श्रेणी 1बी, बुने हुए सूती कपड़े, भुरे या विरंजित, सरसरीकृत या नहीं

1. ट्रिल्स, जीन्स, गवरडीन्स, टुन्स और सटीन्स
2. पाप्लिन

3. शीटिंग और शटिंग, चौड़ाई में 60" के भीतर
4. शीटिंग और शटिंग, चौड़ाई में 60" से ऊपर
5. भूरे या विरंजित कपड़े एन ई एस

श्रेणी 2 ए अन्य बुने हुए सूती कपड़े

6. शीटिंग, शटिंग, नकली विन्सी, नकली फालालैन, छपे हुए से भिन्न चौड़ाई में 60" और इससे ऊपर के अन्य उत्थित, बुना किए हुए या अपरिष्कृत छाग चर्म के कपड़े

7. कार्डराय
8. रंजित धागा (मोटे रंगदार कपड़े सहित), चौड़ाई में 60" के भीतर
9. पाप्लिन
10. रंजित, धागा-रंजित और छपे हुए कपड़े एन ई एस

ग्रुप 2 बी बुनी हुई सूती पोशाकों और निर्मित वस्त्र

11. पुरुषों और लड़कों के लिए बुने हुए पाजामें और जांघिये
12. महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए बुनी हुई बाहरी पोशाकें
13. पुरुषों और लड़कों के लिए कमीजें और बाडिम, बुनी हुई
14. पुरुषों और लड़कों के लिए बुनी हुई भीतर पहनने की पोशाकें
15. महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए बुनी हुई भीतर पहनने की पोशाकें
16. रूमाल
17. तौलिये
18. बिछाने के वस्त्र चादरों सहित
19. दस्ताने
20. निर्मित वस्त्र और पोशाकें एन ई एस

3. भारत के किसी भी पत्तन से निर्यातों की अनुमति होगी

4. भूरे और विरंजित वस्त्र, परिसज्जित वस्त्र तथा तैयार माल के वर्गों के अन्तर्गत आने वाली सभी 20 श्रेणियों के निर्यातों के सम्बन्ध में सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई (संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के कार्यालय, बम्बई में) या कलकत्ता, मद्रास तूतीकोरिन, कोचीन, अहमदाबाद और नई दिल्ली के देहाती पत्तनों पर टैक्स प्रोसिल के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पहले आए सौ पहले पाए के आधार पर शिपिंग बिल पर व्यक्तिगत पोतलदानों के लिए कोटा नियत किए जाएंगे। आवंटन यू० के० वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति, बम्बई द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार किए जाएंगे। इस प्रकार के नियतन के लिए सम्बद्ध निर्यात-नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान पर लाइसेंस पृष्ठांकन किए जाएंगे।

5. यू० के० वस्त्र लाइसेंस प्रदायिनी सलाहकार समिति की बिना लिखित स्पष्ट सहमति के लाइसेंस और कोटा हस्तांतरणीय नहीं होंगे।

6. भारत में किसी भी पत्तन से प्रत्येक चालू माह में सूती वस्त्रों के सभी प्रकार के किए गए पोतलदानों की सूचना सम्बद्ध निर्यातकों द्वारा अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को दे दी जाएगी।

7. निर्यात प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की क्रियाविधि नीचे लिखे अनुसार होगी :—

निर्यातकों को निर्यात प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में तैयार करना चाहिए : प्रमाण-पत्र की एक प्रति पोतलदान के पत्तन पर निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित तथा सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित जब पोतलदान वस्तुतः बीत चुका हो, पोतलदान के पत्तन पर रखली जाएगी जिसे सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा सीमाशुल्क विभाग से एकत्र किया जाएगा। इस प्रकार किए गए प्रमाण-पत्र सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा शिल्प विज्ञान मंत्रालय, ब्रिटेन को अग्रसारित किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में निर्यात प्रमाण-पत्र निर्यातकों द्वारा सीधे अग्रसारित नहीं किए जाएंगे। निर्यात प्रमाण-पत्र की इसी प्रकार प्रमाणित तथा प्रमाणिकृत दूसरी प्रति निर्यातक द्वारा रखली जाएगी। निर्यातक या उसके पोत परिवहन अभिकर्ताओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पोतलदान क्रियान्वित होने के पश्चात् मूल निर्यात प्रमाण-पत्र सम्बद्ध निवारक अधिकारी द्वारा रख लिया गया है।

7(ए). नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों में वायुयान द्वारा किए गए माल परेषण के सम्बन्ध में निर्यातक निर्यात प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों में तैयार करेंगे। निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति टैक्सप्रोसिल के प्रतिनिधियों को टैक्सप्रोसिल के मुख्य कार्यालय को अग्रमित करने और मुख्य कार्यालय द्वारा व्यापार और उद्योग विभाग, लंदन को भेजने के लिए दी जाएगी। उसके बाद निर्यात प्रमाण-पत्र की मूल और अनुलिपि प्रतियां सामान्य तरीके (उपर्युक्त पैरा में यथा उल्लिखित) से वायु मार्ग सीमाशुल्क विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी। नई दिल्ली से वायु मार्ग द्वारा माल परेषण के सम्बन्ध में निर्यातक को दिए गए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार निर्यात प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों को तैयार करेंगे। नई दिल्ली में टैक्स-प्रोसिल के प्रतिनिधि से पोतपरिवहन बिलों पर कोटा पृष्ठांकन कराने के बाद निर्यातक निर्यात प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति प्राधोगिकी मंत्रालय, यू० के० को भेजने के लिए टैक्सप्रोसिल के प्रतिनिधि के पास रहने देंगे। इसके बाद निर्यातक मूल और अनुलिपि प्रति को निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों और वायुमार्ग-सीमाशुल्क विभाग को प्रस्तुत करेंगे। निर्यात प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति और अनुलिपि प्रति पर सीमाशुल्क विभाग में सामान्य तरीके से कार्रवाई करने के बाद निर्यातकों को दे दी जाएगी। इसके बाद प्रमाण-पत्र की मूल प्रति सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधि को सामान्य तरीके से भेजी जाएगी।

8. पुनर्निर्यात (आर० ई०) दायित्वों के प्रति निर्यातकों के मामलों में, संयुक्त मुख्य-नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुनर्निर्यात लाइसेंस जारी करेगा। ये कोटा प्रमाण-पत्र निर्यातकों से पुनर्निर्यात की प्रतिज्ञा की प्रति शिल्पविज्ञान मंत्रालय, ब्रिटेन से प्राप्त हो जाने पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किए जाएंगे।

9. ऐसे मामलों में, जहां मूलतः देश में रखने के विचार से कोटे का पुनर्निर्यात किया जाता है, तो निर्यातकों को शिल्पविज्ञान मंत्रालय, ब्रिटेन द्वारा जारी किए गए प्रतिस्थापन प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्

द्वारा एक अनुवर्ती पुनर्नियत (एस० आर०) कोटा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा । ऐसे एस० आर० कोटा प्रमाण-पत्रों के प्रति, लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात नियत, बम्बई द्वारा जारी किए जाएंगे ।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्रों तथा तैयार माल के लिए प्रति 1000 वर्ग गज पर 1 रुपये का अदेय शुल्क वसूल किया जाएगा इसकी यह शर्त होगी कि सूती वस्त्रों के लिए कम से कम धनराशि 5 रुपये वसूल की जाएगी ।

11. ब्रिटेन सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिकृत है :—

- (क) योजना के परिचालन के लिए समय समय पर नियमों तथा विनियमों का निर्माण करना ;
- (ख) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना ;
- (ग) समय समय पर कार्य अनुपालन की देख-रेख करना ;
- (घ) योजना के परिचालन से सम्बद्ध उत्पन्न विभिन्न मामलों की व्याख्या करना तथा निर्णय देना ; और
- (ङ) योजना में ऐसे परिवर्तन करना जिसे लाइसेंस सलाहकार समिति समय समय पर उचित समझे ।

12. ब्रिटेन वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति में भारतीय सूती मिल संघ द्वारा नामित 5 प्रतिनिधि, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा नामित 5 प्रतिनिधि तथा भारत के वस्त्र विनिर्माता संघ, बम्बई, वस्त्र आयुक्त, बम्बई और संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई प्रत्येक द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि होते हैं ।

13. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है :—

“इंजीनियरिंग सेन्टर”, 9, मैथ्यू रोड, बम्बई 4 ।

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian cotton textiles for export to Austria during the licensing year 1973-74.*

No. 31-ETC(PN)/73.—The scheme relates to the export of all varieties of mill-made cotton textiles from India to AUSTRIA during the licensing year 1st October, 1973 to 30th September, 1974.

2. For purpose of licensing the shipment period will be divided into two six monthly periods, 1st October, 1973 to 31st March, 1974 and 1st April, 1974 to 30th September, 1974.

3. Licences under the scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay on the basis of the quota certificate issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay on first-come-first served basis, on the recommendations of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

- (a) The quota certificate will be issued on presentation, by exporters, of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in Kgs. of the goods in Form prescribed by the Texprocil for the purpose.
- (b) The second six-monthly distribution will be made later in accordance with the decision of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

4. For the purpose of exports and issuance of quota/licences, cotton textiles have been divided into the following three categories:

Category I—Grey goods

Category II—Terry Towels and Towelling, and

Category III—Finished fabrics, Miscellaneous

5. Such imports into Austria will be admitted by the Competent Austrian authority only on presentation of the Green Certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the Austrian authorities would issue an import licence.

6. Exports will be allowed from any port in India.

7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

8. A non-refundable amount of Rs. 10 per tonne, subject to minimum of Rs. 5 will be charged by the Cotton Textiles Export Promotion Council, for issue of quotas.

9. All quota holders shall have to submit monthly reports to the Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipments against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

10. E.E.C.-Austria Textile Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

11. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

“Engineering Centre”,
5th Floor,
9, Mathew Road,
Bombay-4.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Import & Exports.

विषय : लाइसेंस वर्ष 1973-74 के दौरान आस्ट्रिया को भारतीय सूती कपड़े के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने से संबंधित योजना ।

सं० 31-ई० टी० सी० (पी० एन०) / 73:—यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 अक्टूबर, 1973 से 30 सितम्बर, 1974 के दौरान भारत से आस्ट्रिया को सभी प्रकार के मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात से संबंधित है।

2. लाइसेंस देने के विचार से पोतलदान की अवधि को 1 अक्टूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 और 1 अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक की दो छमाही की अवधियों में बांटा जाएगा ।

3. ईईसी-आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले आए सौ पहले पाए के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

(क) निर्यातकों द्वारा फर्म संविदाओं और अन्य व्योरे के साथ टेक्सप्रोमिल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में माल का किलोग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुए एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर कोटा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।

(ख) दूसरी छमाही का वितरण ई ई सी—आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के अनुसार बाव में किया जाएगा ।

4. निर्यात और कोटे / लाइसेंसों को जारी करने में संबंधित कार्यों के लिए सूती वस्त्र निम्न-लिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं :—

श्रेणी 1—भरे रंग के सांमान ।

श्रेणी 2—टैरी तोलिए और तोलिए में संबंधित तथा

श्रेणी 3—तैयार धागे विविध

5. आस्ट्रिया में ऐसे आयातों की स्वीकृति सूची वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन प्रमाण-पत्र जिसके आधार पर समर्थ आस्ट्रिया प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जिसके आधार पर आस्ट्रिया के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

6. भारत में किसी भी पत्तन से निर्यात करने की स्वीकृति दी जाएगी ।

7. लाइसेंस और कोटे ई० ई० सी० और आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति बिना हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे ।

8. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से अदेय शुल्क वसूल किया जाएगा । इसकी न्यूनतम राशि 5 रुपये होगी ।

9. सभी कोटा धारियों को जिनको लाइसेंस जारी किए गए हैं प्रत्येक लाइसेंस के लिए किए गए पोतलदानों का व्यौरा देते हुए एक मासिक रिपोर्ट सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को प्रस्तुत करना चाहिए । ये विवरण परिषद् को अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए ।

10. ई ई सी—आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे :—

(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना ; (ख) समय समय पर कार्यपालन की निगरानी रखना ; (ग) योजना परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिन्हें समिति उचित समझे । कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पूर्व आवेदक द्वारा व्यवस्थित शर्तों का अनुपालन कराने के साथ साथ, लाइसेंस समिति को समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने का भी अधिकार होगा । इसे यह भी अधिकार होगा कि यह कोटा को रोक ले अथवा उसे रद्द कर दे और किसी कारण को बतलाए बिना ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र को रद्द कर दें ।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है :—

“इंजीनियरिंग मेन्टर”,

पांचवीं मंजिल,

9, मैथ्यू रोड, बम्बई-4 ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।